

प्रेस विज्ञप्ति

जामिया में 'टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी एंटरप्रेन्यूरिप' पर तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन

पर्यटन एवं आतिथ्य प्रबंधन विभाग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया है " टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी एंटरप्रेन्यूरिप" पर 28 से 30 जनवरी, 2022 तक तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। यह सम्मेलन पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है। ऑनलाइन 3-दिवसीय सम्मेलन में पर्यटन मंत्रालय, राष्ट्रीय पर्यटन संघ और शिक्षाविद, प्रमुख अधिकाररी भाग लेंगे, जोकि निरंतर बदलती दुनिया की ज़रूरतों के सम्बन्ध में अपने व्यापक अनुभव साझा कर सम्मलेन को प्रासंगिक बनायेंगे। एंटरप्रेन्यूरिप जगत के कुछ उल्लेखनीय वैश्विक विचारक भी सम्मेलन में अपने विचार रखेंगे।

तीन दिवसीय ऑनलाइन सम्मेलन में प्रमुख रूप से प्रो.एसपी बंसल, कुलपति, हिमाचल प्रदेश- केंद्रीय विश्वविद्यालय मुख्य अतिथि होंगे, अन्य विशिष्ट अतिथियों में विशेष रूप से श्री विनोद जुत्शी आईएएस, पूर्व सचिव, पर्यटन मंत्रालय, भारत की सरकार; जबकि डॉ. वेणु वासुदेवन आईएएस, के अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा एवं पर्यटन, केरल सरकार; सुश्री रूपिंदर पन्नू बराड़, अतिरिक्त महानिदेशक, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार; श्री राजीव मेहरा, अध्यक्ष, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स (आईएटीओ), और श्री अनिल के राजपूत, संयुक्त सचिव, एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया (ADTOI) शामिल रहेंगे।

सम्मेलन की मेजबान और मुख्य संरक्षक जामिया की कुलपति प्रो नजमा अख्तर होंगी; सम्मेलन संरक्षक प्रो नाजिम हुसैन अल-जाफरी, रजिस्ट्रार और प्रो मोहम्मद असदुद्दीन, डीन, मानविकी एवं भाषा संकाय होंगे तथा डॉ सारा हुसैन, विभागाध्यक्ष, डीटीएचएम, जामिया सम्मलेन की अध्यक्षता करेंगी और प्रो निमित्त चौधरी, डीटीएचएम जेएमआई सम्मेलन के सह-अध्यक्ष होंगे।

यह सम्मेलन विभिन्न स्टेकहोल्डर्स को भविष्य की पर्यटन प्रवृत्तियों, विचारों, निहितार्थों और पद्धतियों पर चर्चा के लिए एक मंच पर लाने में मदद करेगा जो नवाचार और उद्यमशीलता के विकास के लिए सैद्धांतिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र से जुड़े हैं।

सम्मेलन में कई पैनल चर्चा, तकनीकी ट्रैक, मुख्य वक्ता होंगे सत्र, कार्यशालाएं इसे उद्योग और शिक्षाजगत के लिए अत्यधिक संवादात्मक और प्रासंगिक बनाते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप <http://icdthm.co.in> पर विजिट कर सकते हैं।

जनसंपर्क कार्यालय
जामिया मिल्लिया इस्लामिया